



# दिल्ली विश्वविद्यालय UNIVERSITY OF DELHI

वि.सं.:स्था.IV / 271/2018

दिनांक: 14.09.2018

निदेशक, हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय (DHMI) के एक पद हेतु निर्धारित अवधि/प्रतिनियुक्ति के आधार पर योग्य तथा स्व-प्रेरित सक्षम उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। हिंदी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय (DHMI) का उक्त पद का वेतनमान VII केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार वेतन लेवल 14 है। आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तिथि 04.10.2018 अथवा रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन तिथि से दो सप्ताह के भीतर होगी, जो भी बाद में हो।

## अनिवार्य योग्यता :

1. हिंदी में या निम्न में से कोई भी सामाजिक विज्ञान विषयों अर्थात् राजनीति विज्ञान, इतिहास, अर्थशास्त्र, वाणिज्य स्नातकोत्तर डिग्री तथा अंग्रेजी और हिंदी के पर्याप्त ज्ञान के साथ कम से कम 55% अंक या समकक्ष ग्रेड या सात बिंदु पैमाने O, A, B, C, D, E और F पर समकक्ष ग्रेड B हो ।
2. पीएच.डी. या समकक्ष डिग्री।
3. शिक्षण और / या पोस्ट-डॉक्टरेट शोध / प्रकाशन / अनुवाद के कुल अनुभव 15 वर्षों का हो जिसमें रीडर के पैमाने में कम से कम 8 वर्ष हो ।

## वांछनीय योग्यता:

उम्मीदवार को निम्नलिखित क्षेत्रों में से एक या अधिक क्षेत्रों में एक जिम्मेदार स्थिति में अनुभव होना चाहिए:

1. उच्च शिक्षा के लिए हिंदी भाषा के प्रचार में पुस्तक संवर्धन, मुद्रण और प्रकाशन।
2. वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली।
3. उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालय या संस्थान में हिंदी साहित्य के प्रचार में अनुसंधान अनुभव।
4. अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद कार्य में प्रवीणता और मानक वैज्ञानिक और तकनीकी ग्रंथों की जांच करना।

नोट:

1. रीडर के समकक्ष पद में 8 वर्षों के अपेक्षित प्रासंगिक अनुभव को सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के वेतन मैट्रिक्स के अनुसार लेवल 12 अथवा उससे अधिक या उसके संबंधित पूर्व संशोधित वेतनमान में माना जाएगा।
2. हिंदी अथवा सामाजिक विज्ञान में अतिरिक्त स्नातकोत्तर उपाधि रखने वाले उम्मीदवारों को वरीयता दी जाएगी।
3. दिल्ली विश्वविद्यालय के भर्ती नियम (गैर-शिक्षण कर्मचारी) 2008 की अनुसूची के अनुसार, नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए हो सकती है जिसे इन्हीं समान शर्तों पर आगे के लिए नवीनीकृत किया जा सकता है।

आयु: अधिमानतः 55 वर्ष से कम ।

कुलसचिव

Note: English version of Advertisement is also attached. In case of difference, English version will be treated as final.

नोट : विज्ञापन अँग्रेजी में भी संलग्न है। यदि कोई विवाद हो तो अँग्रेजी के विज्ञापन को अंतिम रूप में माना जाएगा।